



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072025-264337  
CG-DL-E-03072025-264337

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947

No. 398 ]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2025

संख्या 06/2025 – सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 441(अ).—जहां कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7408 के अंतर्गत आते हैं, और जिसके अंतिम निष्कर्ष को अधिसूचना संख्या 07/07/2024-डीजीटीआर, दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के साथ पठित शुद्धिपत्र, दिनांक 2 जुलाई, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी समाप्त होने से सब्सिडी जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति

पहुँचने की संभावना है और विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी को जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज़्ड वस्तुओं की पहचान, आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 20, 22 और 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2020-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 8 जनवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 18(अ), दिनांक 8 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित हुई थी, के अधिक्रमण में, सिवाय उन चीज़ों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयीं या करने से छूट गयीं, केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ शीर्ष के अंतर्गत आती हैं जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर उस राशि तक की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) में उल्लिखित है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, अवतरण मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7408	कंटीनियुस कास्ट कॉपर वायर*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी कार्या सुमिदेन इंडोनेशिया	4.98%
2	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पी.टी. टेम्बागा मुलिया सेमनन टीबीके	3.75%
3	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	7.94%
4	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के अलावा कोई देश	इंडोनेशिया	कोई भी उत्पादक	7.94%

5	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	मेट्रोड मलेशिया एसडीएन बीएचडी	शून्य
6	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 5 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	10.27%
7	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के अलावा कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	10.27%
8	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड	शून्य
9	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	क्र.सं. 8 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	3.46%
10	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के अलावा कोई भी देश	थाइलैंड	कोई भी	3.46%
11	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	कोई भी	7.13%
12	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी	7.13%

\*विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 6 मि.मी. से अधिक और उससे कम के कॉपर वायर शामिल हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉयल फॉर्म में ही कॉपर वायर राड विचाराधीन उत्पाद के दायरे का भाग है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगायी गयी काउंटरवेलिंग ज्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

- (क) ऐसी काउंटरवेलिंग ज्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।
- (ख) “अवतरण मूल्य” से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथा निर्धारित आंकलन योग्य मूल्य से है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल हैं।

[फा. सं. 190354/143/2024-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 3<sup>rd</sup> July, 2025

#### No. 06/2025-Customs (CVD)

**G.S.R. 441(E).**—Whereas, in the matter of “Continuous Cast Copper Wire Rods” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 7408 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 *vide* notification No. 07/07/2024-DGTR, dated the 4<sup>th</sup> April, 2025 read with corrigendum dated 2<sup>nd</sup> July, 2025 has *inter alia* come to the conclusion that the cessation of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry, and has recommended continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act read with rules 20, 22 and 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2020-Customs (CVD), dated the 8<sup>th</sup> January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 18(E), dated the 8<sup>th</sup> January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the

First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a countervailing duty at the rate specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:—

TABLE

S. No.	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as % of Landed Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7408	Continuous Cast Copper Wire*	Indonesia	Any country, including Indonesia	PT Karya Sumiden Indonesia	4.98%
2.	-do-	-do-	Indonesia	Any country, including Indonesia	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	3.75%
3.	-do-	-do-	Indonesia	Any country, including Indonesia	Any producer other than the producers mentioned at S. Nos. 1 and 2	7.94%
4.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam	Indonesia	Any producer	7.94%
5.	-do-	-do-	Malaysia	Any country, including Malaysia	Metrod Malaysia Sdn Bhd	Nil
6.	-do-	-do-	Malaysia	Any country, including Malaysia	Any producer other than the producer mentioned at S. No. 5	10.27%

7.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam	Malaysia	Any	10.27%
8.	-do-	-do-	Thailand	Any country, including Thailand	SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd.	Nil
9.	-do-	-do-	Thailand	Any country, including Thailand	Any producer other than the producer mentioned at S. No. 8	3.46%
10.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam	Thailand	Any	3.46%
11.	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any	7.13%
12.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam	Vietnam	Any	7.13%

*\*The scope of the product under consideration includes copper wire of more than and less than 6mm. It is further clarified that only copper wire rod in coil form is part of the scope of the product under consideration.*

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.** – For the purposes of this notification,–

- (a) the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the

Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act;

- (b) “Landed value” means the assessable value determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

[F. No. 190354/143/2024-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.